



पञ्चमः पाठः




कण्टकेनैव कण्टकम्


[मध्यप्रदेश के डिण्डोरी ज़िले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोककथा है। यह पञ्चतन्त्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है।]

आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः। पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन सः स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म॥ एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे

प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्
यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः

व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत्,
'व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्।' व्याघ्रः न्यवेदयत्-'भो मानव! कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि।' तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत्, 'भो मानव! पिपासुः अहम्। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः





व्याधमवद्, ‘शान्ता मे पिपासा। साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि।’ चञ्चलः उक्तवान्, ‘अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। त्वया मिथ्या भणितम्। त्वं मां खादितुम् इच्छसि?’

व्याघ्रः अवदत्, ‘अरे मूर्ख! क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम् न भवति। सर्वः स्वार्थं समीहते।’

चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्,

‘एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति,
वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मल-मूत्रादिकं
विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं
समीहते।

चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः
अवदत्, ‘मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति।
अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः
प्रहृत्य अस्मध्यं सर्वदा कष्टं ददति। यत्र
कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। सर्वः स्वार्थं समीहते।’

समीपे एका लोमशिका बदरी-गुल्मानां
पृष्ठे निलीना एतां वार्ता॑ शृणोति स्म। सा
सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति—“का वार्ता॑?
माम् अपि विज्ञापय।” सः अवदत्—“अहह मातृस्वसः! अवसरे त्वं
समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम् एषः मामेव खादितुम् इच्छति।”
तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्।

लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्-बाढम्, त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम्



अवदत्-केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्-सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः

अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत् सत्यं त्वया भणितम् ‘सर्वः स्वार्थं समीहते।’



व्याधः

- शिकारी, बहेलिया

स्वीयाम्

- स्वयं की

दौर्भाग्यात्

- दुर्भाग्य से

बद्धः

- बँधा हुआ

पलायनम्

- पलायन करना, भाग जाना

न्यवेदयत् (नि+अवेदयत्)

- निवेदन किया

मोचयिष्यसि

- मुक्त करोगे/छुड़ाओगे

निरसारयत् (निः+असारयत्)

- निकाला

क्लान्तः

- थका हुआ

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| पिपासुः | - | प्यासा |
| शमय | - | शान्त करो/मिटाओ |
| बुभुक्षितः | - | भूखा |
| भणितम् | - | कहा |
| प्रक्षालयन्ति | - | धोते हैं |
| विसृज्य | - | छोड़कर |
| निवर्तन्ते | - | चले जाते हैं/लौटते हैं |
| उपगम्य | - | पास जाकर |
| विरमन्ति | - | विश्राम करते हैं |
| कुठारैः | - | कुल्हाड़ियों से |
| प्रहृत्य | - | प्रहार करके |
| छेदनम् | - | काटना |
| लोमशिका | - | लोमड़ी |
| निलीना | - | छुपी हुई |
| उपसृत्य | - | समीप जाकर |
| मातृस्वसः! | - | हे मौसी |
| समागतवती | - | पधारी/आई |
| निखिलाम् | - | सम्पूर्ण, पूरी |
| बाढम् | - | ठीक है, अच्छा |
| प्रत्यक्षम् | - | अपने (समक्ष) सामने |

कण्टकेनैव
कण्टकम्

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| वृत्तान्तम् | - | पूरी कहानी |
| प्रदर्शयितुम् | - | प्रदर्शन करने के लिए |
| प्राविशत् (प्र+अविशत्) | - | प्रवेश किया |
| कूर्दनम् | - | उछल-कूद |
| अनारतम् | - | लगातार |
| श्रान्तः | - | थका हुआ |
| प्रत्यावर्तत (प्रति+आ+अवर्तत) | - | लौट आया |

अभ्यासः



1. एकपदेन उत्तरं लिखत-

- (क) व्याधस्य नाम किम् आसीत्?
- (ख) चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्?
- (ग) कस्मै किमपि अकार्यं न भवति।
- (घ) बदरी-गुल्मानां पृष्ठे का निलीना आसीत्?
- (ङ) सर्वः किं समीहते?
- (च) निःसहायो व्याधः किमयाचत?

2. पूर्णवाक्येन उत्तरत-

- (क) चञ्चलेन वने किं कृतम्?
- (ख) व्याघ्रस्य पिपासा कथं शान्ता अभवत्?
- (ग) जलं पीत्वा व्याघ्रः किम् अवदत्?
- (घ) चञ्चलः 'मातुस्वसः!' इति कां सम्बोधितवान्?
- (ङ) जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम् अकरोत्?

3. अधोलिखितानि वाक्यानि कः/का कं/कां प्रति कथयति-

| | कः/का | कं/कां |
|---|----------|---------|
| यथा - इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। | व्याघ्रः | व्याधम् |
| (क) कल्याणं भवतु ते। | | |
| (ख) जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। | | |
| (ग) अहं त्वक्ते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम्। | | |
| (घ) यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। | | |
| (ङ) सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। | | |

4. रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्ननिर्माण-

- (क) व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्।
- (ख) चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्।
- (ग) व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्।
- (घ) मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति।
- (ङ) व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्।

5. मञ्जूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत-

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| वृद्धः | साट्हासम् | मोचयितुम् | क्षुद्रः | तर्हि |
| अकस्मात् | कृतवान् | कर्तनम् | स्वकीयैः | दृष्ट्वा |

एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयासं किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं सः तम् अवदत्-अहो! भवान् जाले बद्धः। अहं त्वां इच्छामि। तच्छुत्वा व्याघ्रः अवदत्-अरे! त्वं

कण्टकेनैव
कण्टकम्


..... जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि
अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः
 लघुदन्तैः तज्जालस्य कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः
 कृतवान्।

6. यथानिर्देशमुत्तरत-

- (क) सः लोमशिकायै सर्वा कथां न्यवेदयत् - अस्मिन् वाक्ये विशेषणपदं किम्?
- (ख) अहं त्वकृते धर्मम् आचरितवान् - अत्र अहम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?
- (ग) 'सर्वः स्वार्थं समीहते', अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्?
- (घ) सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति - वाक्यात् एकम् अव्ययपदं चित्वा लिखत।
- (ङ) 'का वार्ता? माम् अपि विज्ञापय' - अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? क्रियापदस्य पदपरिचयमपि लिखत।

7. (अ) उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत-

| यथा- | एकवचनम् | द्विवचनम् | बहुवचनम् |
|----------------|---------|------------|-----------|
| मातृ (प्रथमा) | माता | मातरौ | मातरः |
| स्वसृ (प्रथमा) | | | |
| मातृ (तृतीया) | मात्रा | मातृभ्याम् | मातृभिः |
| स्वसृ (तृतीया) | | | |
| स्वसृ (सप्तमी) | स्वसरि | स्वस्त्रोः | स्वसृषु |
| मातृ (सप्तमी) | | | |
| स्वसृ (षष्ठी) | स्वसुः | स्वस्त्रोः | स्वसृणाम् |
| मातृ (षष्ठी) | | | |





(आ) धातुं प्रत्ययं च लिखत-

| पदानि | = | धातुः | प्रत्ययः |
|--------------|---|-------|----------|
| यथा- गन्तुम् | = | गम् | + तुमुन् |
| द्रष्टुम् | = | | |
| करणीयम् | = | | |
| पातुम् | = | | |
| खादितुम् | = | | |
| कृत्वा | = | | |

योग्यता-विस्तारः

परधान और उनकी कलापरम्परा-परधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गायी जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक 'जनगढ़ कलम' (वन्या प्रकाशन, भोपाल) देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलन-कर्ता हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं।

लोककथाओं में जीवन की रंग-बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोककथाएँ किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहतीं। उन्हें कहने वाले जगह-जगह घूमते हैं इसलिए रूप और वर्णन में हेर-फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोककथाओं की नई-नई व्याख्याएँ होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है।

